

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३५]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी २८, १९६९/माघ ८, १८९०

No. 35]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 1969/MAGHA 8, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मूल्य संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January 1969

S.O. 452.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 of the Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969, the Central Government hereby appoints the Chipping and Painting Employers' Association Private Limited, as the Administrative Body for the purpose of carrying on the day-to-day administration of the said Scheme.

[No. 51/1/69-Fac.II.]

K. D. MAJELA, Under Secy.

